



29 अप्रैल 2024

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- वैश्विक स्तर पर रिफाईंड जिंक बाजार में 2024 में 56,000 मीट्रिक टन का सरप्लस रह सकता है, जबकि पिछला पूर्वानुमान 367,000 टन का था: अंतर्राष्ट्रीय लेड और जिंक अध्ययन समूह।
- लेड बाजार में, 2024 में रिफाईंड धातु की वैश्विक आपूर्ति मांग से 40,000 टन अधिक हो जाएगी: अंतर्राष्ट्रीय लेड और जिंक अध्ययन समूह।
- इंटरनेशनल निकल स्टडी ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि 2022 और 2023 में क्रमशः 98,000 और 163,000 टन के सरप्लस के बाद इस वर्ष निकल की आपूर्ति मांग से 109,000 टन अधिक हो जाएगी।
- चीन के गोल्ड एसोसिएशन ने कहा है कि 2024 की पहली तिमाही में चीन में सोने की खपत एक साल पहले की तुलना में 5.94% बढ़कर 308.905 मीट्रिक टन हो गई। जनवरी-मार्च के दौरान घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे माल से बना सोने का उत्पादन वर्ष में 1.16% बढ़कर 85.959 टन हो गया।
- गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में 2024 में 428,000 टन तांबे की कमी होने की संभावना है।
- एसएमएम आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2024 में चीन में स्टेनलेस स्टील का कुल आयात 161,500 टन हुआ है, जो महीने-दर-महीने लगभग 30.76% और साल-दर-साल लगभग 3.07% की कमी है।
- कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम अनुमान के अनुसार, अक्टूबर-मार्च के दौरान कपास का निर्यात 137 प्रतिशत बढ़कर 18 लाख गांठ हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कपास का निर्यात 7.59 लाख गांठ हुआ था।
- आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 23 अप्रैल तक देश में गेहूँ की खरीद 119.26 लाख टन तक पहुंच गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 159.23 लाख टन की खरीद हुई थी।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	19.04.24	25.04.24	बदलाव (%)
हल्दी	18346.00	19386.00	5.67%
जौ	1955.00	2007.50	2.69%
जीरा	22255.00	22755.00	2.25%
कपास	1587.50	1614.00	1.67%
ग्वारगम	11055.00	11235.00	1.63%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	19.04.24	25.04.24	बदलाव (%)
स्टील	47820.00	46510.00	-2.74%
मक्का	2132.00	2085.00	-2.20%
सीसेमसीड	15490.00	15320.00	-1.10%
कैस्टर ऑयल	1178.00	1169.50	-0.72%
धनिया	7628.00	7592.00	-0.47%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	19.04.24	25.04.24	बदलाव (%)
निकल	1548.20	1615.40	4.34%
मेंथा ऑयल	893.80	918.70	2.79%
एल्युमीनियम	242.45	248.45	2.47%
कॉटन	57960.00	58620.00	1.14%
तांबा	845.15	848.40	0.38%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	19.04.24	25.04.24	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	146.80	134.90	-8.11%
चांदी	83507.00	80684.00	-3.38%
सोना	72806.00	71214.00	-2.19%
सोना गिनी	59403.00	58700.00	-1.18%
लेड	189.75	187.80	-1.03%

साप्ताहिक समीक्षा

पिछले हफ्ते कमोडिटी बाजार में सीआरबी इंडेक्स को 346 के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप इसमें मामूली गिरावट हुई। पांच सप्ताह की मजबूत तेजी के बाद, मुनाफावसूली के कारण सोने की कीमतों में गिरावट हुई, जबकि चांदी की कीमतें 27 डॉलर से ऊपर जाने के बाद सप्ताह समाप्त होने से पहले इस स्तर से नीचे फिसल गई। एमसीएक्स पर सोना 70202 के निचले स्तर पर पहुंच गया और चांदी थोड़ी देर के लिए 80000 के नीचे फिसल गई। लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद नेचुरल गैस की कीमतों को 1.82 डॉलर के करीब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। कच्चे तेल की कीमतें, जो कुछ सप्ताह पहले 88 डॉलर के करीब रुकी थीं, शुरुआत में और गिरावट देखी गई, लेकिन अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में गिरावट के बाद इसमें तेजी आई। बुधवार को ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों ने संकेत दिया कि निर्यात में उछाल के कारण अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में पिछले सप्ताह अप्रत्याशित रूप से गिरावट आई, जबकि गैसोलीन भंडार में पूर्वानुमान से कम गिरावट हुई। ईआईए ने कहा कि 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में कच्चे तेल का स्टॉक 6.4 मिलियन बैरल घटकर 453.6 मिलियन बैरल रह गया, जबकि रॉयटर्स पोल में 825,000 बैरल की वृद्धि की उम्मीद की गई थी। बेस मेटल में, मजबूत औद्योगिक गतिविधि, रूसी धातुओं पर प्रतिबंधों के बीच आपूर्ति में व्यवधान और दुनिया में धातु के सबसे बड़े उपभोक्ता में बेहतर मांग के कारण तांबे की कीमतों ने लगातार पांचवें सप्ताह अपनी प्रभावशाली तेजी जारी रखी। यूरोप और अमेरिका से भी मांग नाटकीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन देशों में संभावित रूप से आर्थिक और औद्योगिक सुधार में तेजी देखी जा रही है। लेड की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से फिसल गईं। एल्युमीनियम की कीमतों में आठ सप्ताह की तेजी पर विराम लग गया, और जिंक की कीमतों में भी अपने उच्चतम स्तर से गिरावट हुई। वैश्विक स्तर पर रिफाईंड जिंक बाजार में 2024 में 56,000 मीट्रिक टन का सरप्लस रह सकता है, जबकि पिछला पूर्वानुमान 367,000 टन का था। लेड बाजार में, 2024 में रिफाईंड धातु की वैश्विक आपूर्ति मांग से 40,000 टन अधिक हो जाएगी।

कृषि कमोडिटीज में, अरंडी की कीमतों में चार सप्ताह से हो रही गिरावट पर रोक लग गई, जबकि सूरजमुखी तेल की कीमतों में गिरावट हुई। कॉटन कैंडी की कीमतों में निचले स्तर से मामूली सुधार देखा गया, और कॉटनऑयलसीडकेक ने भी समान प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया। ग्वार ने अपनी तेजी की गति बरकरार रखी। फरवरी-24 में ग्वार डेरिवेटिव उत्पादों का निर्यात सालाना 46% बढ़कर 37.3 हजार टन हो गया। मसालों में, जीरा की कीमतों में गिरावट का रुख जारी है, जबकि हल्दी की कीमतों ने तेजी के साथ बाजार को चौंका दिया है। उभरती निर्यात पूछताछ और पिछले वर्ष की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम आवक ने हल्दी की कीमतों में तेजी लाने में प्रमुख योगदान दिया। मजबूत निर्यात मांग के कारण उतार-चढ़ाव की अवधि के बाद धनिया वायदा की कीमतें भी बढ़त के साथ बढ़ गईं। हाल ही में सरकारी आधिकारिक विज्ञापित के अनुसार, फरवरी-24 में धनिया का निर्यात साल-दर-साल 35% बढ़कर 4.6 हजार टन हो गया। अप्रैल-23-फरवरी-24 की समय अवधि के दौरान धनिया का कुल निर्यात 71.18 हजार टन तक पहुंच गया। छह सप्ताह की गिरावट के बाद मेंथा ऑयल 900 के स्तर से उबर गया।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	19.04.2024	25.04.2024	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	2108.05	2100.00	-0.38%
चना	दिल्ली	6308.60	6400.00	1.45%
धनिया	कोटा	7624.20	7638.60	0.19%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	904.75	881.50	-2.57%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1506.10	1582.80	5.09%
ग्वारसीड	जोधपुर	5556.35	5629.80	1.32%
ग्वारगम	जोधपुर	10990.75	11256.85	2.42%
जीरा	रुझा	23561.30	23871.40	1.32%
सरसों	जयपुर	5395.95	5375.05	-0.39%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	940.00	925.00	-1.60%
सोयाबीन	इंदौर	4813.80	4786.35	-0.57%
हल्दी	निजामाबाद	17242.40	17705.25	2.68%
गेहूं	दिल्ली	2470.00	2460.00	-0.40%
काँटन	कड़ी	28038.55	28086.35	0.17%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2697.15	2697.05	0.00%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	काँट्रैक्ट	19.04.2024	25.04.2024	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2669.00	2563.50	-3.95%
तांबा	LME	नकद	9876.00	9865.00	-0.11%
लेड	LME	नकद	2218.50	2207.50	-0.50%
निकल	LME	नकद	19326.00	19157.00	-0.87%
जिंक	LME	नकद	2852.00	2848.00	-0.14%
सोना	COMEX	जून	2413.80	2342.50	-2.95%
चांदी	COMEX	मई	28.84	27.35	-5.17%
लाइट क्रूड	NYMEX	मई	83.14	83.57	0.52%
नेचुरल गैस	NYMEX	मई	1.75	1.64	-6.51%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	काँट्रैक्ट	19.04.2024	25.04.2024	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जुलाई	1,165.75	1,179.75	1.20%
सोया तेल	CBOT	जुलाई	44.94	45.43	1.09%
काँटन	ICE	जुलाई	81.02	81.08	0.07%
सीपीओ	BMD	जुलाई	3,926.00	3,874.00	-1.32%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	18.04.2024 क्वांटिटी	25.04.2024 क्वांटिटी	अंतर
काँटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	30	30	0
जौ	मी.टन	381	381	0
कैस्टर सीड	मी.टन	9771	17526	7755
धनिया	मी.टन	4355	4890	535
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	66237	63753	-2484
ग्वारगम	मी.टन	17984	17997	13
ग्वारसीड	मी.टन	24153	21949	-2204
जीरा	मी.टन	141	105	-36
स्टील	मी.टन	10	10	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	19.04.2024 क्वांटिटी	25.04.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	224	75	-150
तांबा	मी.टन	1032126	1874602	842476
सोना	किग्रा	329	329	0
सोना मिनी	किग्रा	1776	1776	0
सोना गिनी	किग्रा	32900	32900	0
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	309966	304990	-4976
चांदी एम	किग्रा	49553	50303	750
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 19.04.2024	स्टॉक की स्थिति 25.04.2024	अंतर
एल्युमीनियम	500000	494875	-5125.00
तांबा	121200	120400	-800.00
निकल	74928	77622	2694.00
लेड	271525	266950	-4575.00
जिंक	256175	254500	-1675.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	22665.00	23.04.24	तेजी	22000.00	21300.00	-	21000.00
NCDEX	हल्दी	जून	19082.00	18.04.24	तेजी	18000.00	18200.00	-	18000.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	5581.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5330.00	-	5300.00
NCDEX	ग्वारगम	मई	11198.00	28.03.24	तेजी	10000.00	10850.00	-	10800.00
NCDEX	कैस्टरसीड	मई	5787.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5630.00	-	5600.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	मई	865.50	06.03.24	तेजी	845.00	830.00	-	825.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मई	2555.00	26.03.24	मंदी	2600.00	-	2675.00	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	मई	928.50	27.09.23	मंदी	960.00	-	957.00	960.00
MCX	बुलडेक्स	मई	18032.00	04.03.24	तेजी	16600.00	17750.00	-	17700.00
MCX	चांदी	जुलाई	82417.00	04.03.24	तेजी	72200.00	80300.00	-	80000.00
MCX	सोना	जून	71214.00	04.03.24	तेजी	64000.00	70200.00	-	70000.00
MCX	तांबा	मई	852.85	06.03.24	तेजी	730.00	831.00	-	830.00
MCX	लेड	मई	191.05	06.03.24	तेजी	179.00	184.00	-	183.00
MCX	जिंक	मई	252.35	06.03.24	तेजी	218.00	241.00	-	240.00
MCX	एल्युमिनियम	मई	235.40	04.03.24	तेजी	202.00	229.00	-	228.00
MCX	कच्चा तेल	मई	6911.00	13.03.24	तेजी	6500.00	6630.00	-	6600.00
MCX	नेचुरल गैस	मई	165.30	26.04.24	तेजी	165.00	133.00	-	130.00

*25/04/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मॉनिंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

जिंक (मई) एमसीएक्स



जिंक (मई) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 256.40

निचला स्तर: 217.05

एमसीएक्स में जिंक (मई) कॉन्ट्रैक्ट 25 अप्रैल 2024 को 252.35 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 244.38 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 73.50 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

246.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 265.00 ₹ के टारगेट के लिए 252.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

कच्चा तेल (मई) एमसीएक्स



कच्चा तेल (मई) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 7280.00

निचला स्तर: 6367.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (मई) कॉन्ट्रैक्ट 25 अप्रैल 2024 को 6911.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6942.76 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.358 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6800.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 7250.00 ₹ के टारगेट के लिए 6950.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

हल्दी (जून) एनसीडीईएक्स



हल्दी (जून) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 20174.00

निचला स्तर: 12922.00

एमसीएक्स में हल्दी (जून) कॉन्ट्रैक्ट 25 अप्रैल 2024 को 19082.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 18187.87 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 63.228 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

18200.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 19900.00 ₹ के टारगेट के लिए 18800.00 ₹ के ऊपर खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

ओपन इंटरैस्ट में महत्वपूर्ण बढ़त के साथ खरीदारी में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। कम उत्पादकता और कम उत्पादन के कारण आपूर्ति में कमी की संभावनाओं को लेकर चिंता के कारण कीमतों को 20174 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद मिली। लेकिन सप्ताह के दूसरे भाग में कुछ मुनाफावसूली देखी गई। फिर भी साप्ताहिक आधार पर कीमतें 5% से अधिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब हुईं। वर्ष 2024 में कम उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में आवक की गति धीमी रही है। पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम रकबे के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 16% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.7 लाख टन रह सकता है। आने वाले हफ्तों में हल्दी की आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है क्योंकि कटाई गतिविधियां पूरी हो गई हैं। सुस्त निर्यात की रिपोर्ट से इस काउंटर पर मुनाफावसूली भी होगी। मोरक्को, ईरान, सऊदी अरब द्वारा खरीदारी कम होने से फरवरी, 2024 में हल्दी निर्यात में लगातार 8वें महीने फिर से गिरावट हुई। अप्रैल-23-फरवरी-24 के दौरान हल्दी का कुल निर्यात साल-दर-साल 9% कम होकर 155.58 टन दर्ज किया गया। हल्दी की कीमतें 18100-20400 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

साप्ताहिक आधार पर जीरा वायदा में तेजी का कारोबार हुआ, जहां स्टॉकस्टों और मिल मालिकों की सक्रिय खरीदारी के कारण तेजी आई। बढ़ती निर्यात मांग के कारण उझा बाजार में हाजिर कीमतों में तेजी देखी गई और इसका असर वायदा कीमतों पर भी देखा गया। लेकिन बढ़त सीमित होने की संभावना है क्योंकि बंपर उत्पादन की संभावनाएं और नई फसल की शुरुआत से कीमतों पर दबाव रह सकता है। गुजरात और राजस्थान में कटाई गतिविधियां अंतिम चरण में हैं जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। घरेलू बाजार में कम उपलब्धता और कम स्टॉक के कारण फरवरी-24 में जीरा का निर्यात कम हुआ है। भारत ने फरवरी-24 में 10.96 हजार टन जीरा का निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 11.36 हजार टन था, जो साल-दर-साल 3.4% कम है। अप्रैल-23-फरवरी-24 की समयावधि के दौरान भारत से जीरा निर्यात में साल-दर-साल 23.7% की गिरावट दर्ज की गई है। जीरा की कीमतों के 20500-30000 के दायरे में रहने की संभावना है।

साप्ताहिक आधार पर धनिया की कीमतों में मध्यम बढ़त दर्ज की गई क्योंकि नई आवक की आपूर्ति में वृद्धि की उम्मीद ने सप्ताह के अंत तक अधिकांश बढ़त को खत्म कर दिया। लेकिन, पिछले साल की तुलना में आवक कम है क्योंकि अप्रैल-24 में अब तक लगभग 38.7 हजार टन की आवक हुई है जबकि पिछले साल 92.8 हजार टन की आवक हुई थी। कमजोर उत्पादन अनुमान के मद्देनजर भौतिक मांग में सुधार हुआ। मजबूत निर्यात मांग ने भी कीमतों को तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने में मदद की। सरकारी अधिकारिक विज्ञापित के अनुसार, फरवरी-24 में धनिया का निर्यात साल-दर-साल 35% बढ़कर 4.6 हजार टन हो गया। अप्रैल-23-फरवरी-24 की समय अवधि के दौरान धनिया का कुल निर्यात 71.18 हजार टन तक पहुंच गया। कमजोर आपूर्ति की आशंका के कारण धनिया में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है क्योंकि रकबा और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी होने की संभावना है। धनिया की कीमतों के 7200-8400 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी के रुख पर कपास की कीमतों में रिकवरी हुई। निर्यात की बेहतर संभावनाओं और धीमी आवक गति से कपास की कीमतों को तेजी के रुझान के साथ कारोबार करने में मदद मिली। अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट के कारण आईसीडी में कॉटन की कीमतों में तेजी आई, जिसमें कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जो सिंथेटिक फाइबर की तुलना में प्राकृतिक फाइबर को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। मुख्य ध्यान आगामी फसल और बुआई की स्थिति पर होगा क्योंकि पंजाब और हरियाणा में बुआई गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। खेती की लागत से कम कीमत मिलने के कारण भारत के उत्तरी भाग में कपास के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में गिरावट होने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 57500-61500 के बीच कारोबार करने की संभावना है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण एनसीडीईएक्स पर कपास वायदा की कीमतों के तेजी के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। बाजार में कम आपूर्ति से एनसीडीईएक्स में सबसे सक्रिय अप्रैल-25 कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों के 1650 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जिसे 1570 के स्तर पर अहम सपोर्ट रह सकता है।

बाजार में बिकवाली के बढ़ते दबाव के कारण कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के 2470-2680 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

बाजार में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण ग्वारसीड वायदा में तेजी की संभावना है। कम उत्पादन के कारण हाल के सप्ताहों में आवक की गति धीमी रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से भी ग्वार गम के लिए बाजार के सेंटीमेंट को समर्थन मिलेगा। वर्ष 2023-24 में ग्वारसीड का कुल उत्पादन साल-दर-साल 11% -13% घटकर 10.7 लाख टन रह गया है। मौजूदा दर पर ग्वारगम की मांग बढ़ी है जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। पेरार्ड मार्जिन में सुधार हुआ है जिससे ग्वारगम की पेरार्ड मांग में वृद्धि होगी। ग्वारगम के बढ़ते निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। फरवरी-24 में ग्वारगम का निर्यात सालाना 46% बढ़कर 37.3 हजार टन हो गया। ग्वारसीड की कीमतों को 5200 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि रेजिस्टेंस 6000 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 10800 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है, जबकि रेजिस्टेंस 12500 पर देखा जा सकता है।

बढ़ती निर्यात मांग और धीमी आवक गति के कारण मेंथा ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। मेंथा के कमजोर उत्पादन अनुमान से स्टॉकस्टों को मेंथा ऑयल खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मेंथा ऑयल की कीमतों को 890 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 955 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखा जा सकता है।

अरंडीमिल की कमजोर मांग के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी की पेरार्ड मांग कम होने से कीमतों पर दबाव पड़ने की संभावना है। अरंडी (कैस्टर सीड) की कीमतों के 5600-6100 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्पाका

सोने की कीमतों में छह सप्ताह में पहली साप्ताहिक गिरावट देखी गई, जो मध्य पूर्व संकट में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंकाओं के बीच सेंटीमेंट में बदलाव का संकेत है। 12 अप्रैल को 2,431.29 डॉलर के अपने उच्चतम स्तर से, कीमतें लगभग 100 डॉलर लुढ़क गईं। वर्तमान में, कीमतें स्थिर हो गई हैं और दरों में संभावित कटौतों की उम्मीदों के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं। हाल ही में जारी अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने एक मिली-जुली तस्वीर पेश की, जिससे दुष्टकाण जटिल हो गया। जबकि पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि अनुमान से अधिक धीमी रही, और मुद्रास्फीति का दबाव बना रहा। इससे ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के रुख को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। दर के बारे में अधिक जानकारी के लिए निगाहें अब मार्च के मुख्य व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) सूचकांक, फेड के पसंदीदा मुद्रास्फीति मापदंड, पर हैं। डॉलर इंडेक्स मार्च की शुरुआत के बाद से अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर अग्रसर है, जिससे अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोना अधिक किफायती हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि हांगकांग के माध्यम से शीर्ष उपभोक्ता चीन में सोने का शुद्ध आयात मार्च में पिछले महीने से 40% बढ़ गया। देश के गोल्ड एसोसिएशन ने कहा कि 2024 की पहली तिमाही में चीन में सोने की खपत एक साल पहले की तुलना में 5.94% बढ़कर 308.905 मीट्रिक टन हो गई, और जनवरी-मार्च के दौरान घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे माल से चीन में सोने का उत्पादन 1.16% बढ़कर 85.959 टन हो गया। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 2340 डॉलर के रेजिस्टेंस के करीब हैं। इस स्तर को पार करने पर कीमतें 2400 डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच सकती हैं, जबकि इससे ऊपर बने रहने में विफल होने पर बिकवाली के दबाव को बढ़ावा दे सकती है, जिससे कीमतें 2290 डॉलर के सपोर्ट स्तर तक जा सकती हैं। चांदी की कीमतों में 27.00 और 28.50 डॉलर के बीच उतार-चढ़ाव होने का अनुमान है। आगे सोने की कीमतें तेजी के रुझान के साथ 70200-72500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जबकि चांदी की कीमतों में 80000-83500 के बीच उतार-चढ़ाव हो सकता है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

आर्थिक विकास और मध्य पूर्व में संघर्षों से उत्पन्न आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बारे में एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी की आशावादी टिप्पणियों के कारण तेल की कीमतों में दो सप्ताह की गिरावट का सिलसिला थम गया और कीमतें तेजी के रुझान के साथ बंद हुईं। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन के रॉयटर्स को दिए गए बयानों ने आत्मविश्वास जगाया क्योंकि उन्होंने पहली तिमाही के लिए अमेरिकी जीडीपी वृद्धि में संभावित बढ़ोतरी का संकेत दिया था और हाल की आर्थिक कमजोरियों के लिए अजीबोगरीब कारकों को जिम्मेदार ठहराते हुए मुद्रास्फीति में गिरावट की आशंका जताई थी। लेकिन आंकड़ों से पहली तिमाही की आर्थिक वृद्धि में मंदी का पता चला है, और येलेन की टिप्पणियों ने आश्वासन दिया है कि वास्तविक आर्थिक ताकत पहले की अपेक्षाओं से अधिक हो सकती है। उनकी टिप्पणी से पहले, बढ़ती मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं ने तेल की कीमतों को कम कर दिया था, क्योंकि निवेशकों ने अनुमान लगाया था कि फेडरल रिजर्व सितंबर तक ब्याज दर को कटौती में देरी करेगा। इसके अलावा, मध्य पूर्व में तनाव के कारण कीमतों को समर्थन मिल रहा है। इजराइल ने राफा पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं और संभावित हताहतों के बारे में सहयोगियों की चेतानवी के बावजूद व्यापक हमले की योजना की घोषणा की है। भविष्य को देखते हुए, तेल की कीमतों में मिला-जुला रुझान रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर तेजी रहने का अनुमान है। कच्चे तेल की कीमतों के 6750-7250 के बीच रहने की उम्मीद है। इस बीच, पिछले चार हफ्तों में नेचुरल गैस की कीमतों में 11.71% की गिरावट हुई है और पिछले 12 महीनों में 31.51% की गिरावट हुई है। लेकिन, ईआईईए के अनुसार नेचुरल गैस की उम्मीद से अधिक साप्ताहिक आपूर्ति के कारण कीमतों में हाल के निचले स्तर से सुधार हुआ है। दक्षिणी अमेरिका में गर्म मौसम की उम्मीदों ने एयर कंडीशनिंग के उपयोग की मांग को बढ़ा दिया, जिससे कीमतों पर कुछ हद तक गिरावट का दबाव कम हो गया। आगामी सप्ताह के लिए, नेचुरल गैस की कीमतों के 152-175 के दायरे में रहने का अनुमान है।



बेस मेटल

खदानों से आपूर्ति में गिरावट के बीच मजबूत औद्योगिक गतिविधि और आपूर्ति चिंताओं के कारण बेस मेटल की कीमतों में तेजी का रुझान जारी रह सकता है। मैनुफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी, विशेष रूप से शीर्ष उपभोक्ता चीन में, जहां क्रय प्रबंधकों के सर्वेक्षण में विस्तार दिखना शुरू हो गया है, ने भी बेस मेटल के प्रति उत्साह में योगदान दिया है। यूरोप और अमेरिका से भी मांग नाटकीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इन देशों में संभावित रूप से आर्थिक और औद्योगिक सुधार में तेजी देखी जा रही है। तांबे की कीमतें 847-870 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कमोडिटी कारोबारी ट्रेडिंगुरा ने रॉयटर्स को बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और ऑटोमेशन क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों से अगले दशक में कम से कम 10 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त तांबे की खपत होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन जैसे तकनीकी विकास और ऊर्जा संक्रमण, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं, ने पहले से ही बिजली का संचालन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तांबे की केबल की मांग की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। जिंक की कीमतें 245-265 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। वैश्विक स्तर पर रिफाइंड जिंक बाजार में 2024 में 56,000 मीट्रिक टन का सरप्लस रह सकता है, जबकि पिछला पूर्वानुमान 367,000 टन का था। लेड बाजार में, 2024 में रिफाइंड धातु की वैश्विक आपूर्ति मांग से 40,000 टन अधिक हो जाएगी। लेड की कीमतें 187-194 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 230-245 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। धातु की बढ़ती मांग और उद्योग की लाभप्रदता के कारण मार्च में चीन का प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन साल-दर-साल 7.4% बढ़ गया। स्टील लॉन्ग (मई) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 42700-44700 के स्तर के बीच कारोबार करने की संभावना है क्योंकि मार्च 2024 में चीन में स्टेनलेस स्टील का कुल आयात 161,500 टन हुआ है, जो महीने-दर-महीने लगभग 30.76% और साल-दर-साल लगभग 3.07% की कमी है।

कपास.....एनसीडीईएक्स में

कपास मनुष्यों द्वारा की जाने वाली खेती के तहत सबसे पुराने प्राकृतिक फाइबर में से एक है। इसे सफेद सोने के रूप में जाना जाता है जो मानव जीवन में महत्व को दर्शाता है। कपास कच्चा सूती कपास है, जिसमें से कपास के बीजों का अलग नहीं किया जाता है जबकि कॉटन में बीजों को अलग कर दिया जाता है।

चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 24% का योगदान देता है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने मौजूदा सीजन के लिए फसल उत्पादन अनुमान को बढ़ाकर 323.11 लाख गांठ कर दिया, जबकि पहले का अनुमान 316.57 लाख गांठ था और 2022-23 में प्राप्त 336.6 लाख गांठ से कम है।

चालू बाजार वर्ष 2023-24 के मूल फंडामेंटल की बात करें तो कटाई का मौसम खत्म होने के कारण आवक कम हो गई है और वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 260.33 लाख गांठ की आवक हुई है। आवक की गति अब तक कम है लेकिन वर्ष 2023-24 में कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण धीमी होने की संभावना है।

मांग के मोर्चे पर, भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो वैश्विक खपत का 21% उपभोग करता है और वार्षिक आधार पर घरेलू स्तर पर लगभग 300-320 लाख गांठ की खपत करता है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने कहा कि उसने चालू 2023-24 सीजन में अब तक 32.81 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है।

वर्ष 2023-24 में घरेलू खपत 313 लाख गांठ से बढ़कर 317 लाख गांठ हो गई है, साथ ही पिछले महीने के अनुमान के 34 लाख गांठ की तुलना में निर्यात बढ़कर 42 लाख गांठ हो गया है। वैश्विक खरीदारों के लिए भारतीय कपास की कीमतें आकर्षक रहने के साथ, बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे देशों में कपास के निर्यात में पिछले चार महीनों में वृद्धि हुई है। प्रतिकूल मौसम के कारण नई फसल की गुणवत्ता संबंधी समस्या के बीच कम उपलब्धता के कारण वर्ष 2023-24 में भारत से कपास और सूती धागे का निर्यात कमजोर रहने की संभावना है। घरेलू बाजार में सामान्य आपूर्ति से कम रहने से वर्ष 2024 में कपास की कीमतें महंगी रहेंगी और इससे कुल निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।



स्रोत: अमेरिकी कृषि विभाग

शुरुआती स्टॉक 61.16 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो चालू सीजन (अक्टूबर 2023-सितंबर 2024) के लिए 396.27 लाख गांठ की कुल आपूर्ति अनुमान में योगदान देता है। समिति ने कैरीओवर स्टॉक के अपने अनुमान को भी पहले के 57.65 लाख गांठ से घटाकर 52.27 लाख गांठ कर दिया है।

आगामी बाजार वर्ष 2024/25 के लिए, अधिक मुनाफे वाली फसलों की ओर रकबे में प्रत्याशित बदलाव के कारण भारत के कपास उत्पादन में दो प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है।

कपास वायदा का कॉन्ट्रैक्ट स्पेशिफिकेशन

डेरिवेटिव	कपास वायदा
टिकर सिम्बल	KAPAS
ट्रेडिंग यूनिट	1 लॉट (प्रत्येक 20 किग्रा के 200 मॉन्ड यानी 4 टन)
भाव यूनिट	₹/20 किग्रा
अधिकतम ऑर्डर साइज	50 लॉट यानी 200 टन
टिक साइज	50 पैसे
प्रारंभिक मार्जिन	न्यूनतम 8% या स्पैन पर आधारित, इनमें से जो भी अधिक हो।
डिलीवरी यूनिट	1 लॉट (प्रत्येक 20 किग्रा के 200 मॉन्ड यानी 4 टन) (डिलीवरी किए जाने वाले प्रत्येक लॉट के कुल भार का ±1)
डिलीवरी केन्द्र	राजकोट (गुजरात)

स्रोत: एनसीडीईएक्स

आपूर्ति में कमी के कारण कपास की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2023-24 में कपास का अंतिम स्टॉक कई वर्षों के निचले स्तर 20 लाख गांठ तक कम होने की संभावना है, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 28.9 लाख गांठ बताया गया था। वर्ष 2023-24 में उत्पादन में साल-दर-साल 3% की कमी आने का अनुमान है, जिससे मिल मालिकों को कीमतों में हर गिरावट पर आक्रामक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करेगा।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीटि द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को ज़रूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।